



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022024-251808
CG-DL-E-05022024-251808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2024/माघ 16, 1945

No. 446]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2024/MAGHA 16, 1945

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2024

का.आ. 474(अ).—केंद्र सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 फरवरी, 2024 को उस तारीख के रूप में एतद्वारा नियत करती है जिस तारीख को इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. डीएसटी/एएनआरएफ/जेड-02/2023]

अखिलेश गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2024

S.O. 474(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), the Central Government hereby appoints the 5th day of February, 2024 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. DST/ANRF/Z-02/2023]

AKHILESH GUPTA, Sr. Advisor

737 GI/2024